



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 52 पटना, बुधवार, 5 पौष 1934 (श0)
26 दिसम्बर 2012 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
18 दिसम्बर 2012

सं० II/ई¹-101/1998-6519—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल ने गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी, मुख्यालय खिजरसराय में वर्ष 2009-10 में अस्थायी रूप से पुनः स्थापित किये गये अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थायी रूप से अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक-एक सृजित पद का वर्ष 2012-13 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

02. यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं० 322 दिनांक 03.02.2012 के क्रम में निर्गत की जा रही है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रमा सिंह, अपर सचिव।

सं० II/ई¹-101/1998-6520
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
(निबंधन)

प्रेषक,

चन्द्रमा सिंह,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना, दिनांक 18.12.2012

विषय:— गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी मुख्यालय-खिजरसराय में वित्तीय वर्ष 2009-10 में अस्थायी रूप से पुनः स्थापित किये गये अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थायी रूप से अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के सृजित एक-एक पद का वर्ष 2012-13 के लिए अवधि विस्तार के संबंध में।

प्रसंग :— विभागीय अधिसूचना संख्या 322 दिनांक 03.02.2012 एवं स्वीकृत्यादेश सं० 323 दिनांक 03.02.2012
आदेश — स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचनाओं के क्रम में कहना है कि सरकार ने गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी मुख्यालय खिजरसराय में वर्ष 2009-10 में अस्थायी रूप से पुनः स्थापित किये गये अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थायी रूप से सृजित अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक-एक पद का वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल अनुमानित व्यय रु०. 7,44,509/- (सात लाख चौवालिस हजार पांच सौ नौ रुपये) मात्र पर अवधि विस्तार के प्रस्ताव में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तत्संबंधी व्यय विवरणी संलग्न है।

02. संबंधित अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक उपर्युक्त पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

03. उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान "मुख्य शीर्ष 2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण, उप मुख्य शीर्ष 03 पंजीकरण, लघु शीर्ष 001 निदेशन एवं प्रशासन, उप शीर्ष 0002 जिला प्रभार" विपत्र कोड-N-2030030010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए उपबंधित राशि से किया जाएगा।

अनुलग्नक:— यथावर्णित।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रमा सिंह, अपर सचिव।

अनुलग्नक:-1

व्यय विवरणी

गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी मुख्यालय-खिजरसराय में अस्थायी रूप से खोले गये नये अवर निबंधन कार्यालय पर वर्ष 2012-13 में होने वाले संभावित व्यय।

क्रम0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनबैंड (पुनरीक्षित)	ग्रेड वेतन	कुल वार्षिक व्यय
1	2	3	5	6	7
01.	अवर निबंधक (राजपत्रित)	01 (एक)	9,300-34,800	4,800	2,17,800
02.	रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित)	01 (एक)	4,440-7,440	1,650	73,080
03.	आदेशपाल (अराजपत्रित)	01 (एक)	4,440-7,440	1,650	73,080
				कुल योग-	3,63,960

(1) वेतन :-	
01. पदाधिकारी -	2,17,800
02. रात्रिप्रहरी -	73,080
03. आदेशपाल -	73,080
(2) महुँगाई भत्ता (72 प्रतिशत)	
01. पदाधिकारी -	1,56,816
02. रात्रिप्रहरी -	52,618
03. आदेशपाल -	52,618
(3) मकान भाड़ा (7.5 प्रतिशत)	
01. पदाधिकारी -	16,335
02. रात्रिप्रहरी -	5,481
03. आदेशपाल -	5,481
(4) चिकित्सा भत्ता	
01. पदाधिकारी -	2,400
02. रात्रिप्रहरी -	2,400
03. आदेशपाल -	2,400
(5) आकस्मिक व्यय	
01. कार्यालय का मकान भाड़ा	49,000
02. लेखन सामग्री	10,000
(6) अनावर्त व्यय, उपस्कर इत्यादि	25,000
	कुल :- 7,44,509

व्यय का सारांश

01.	पदाधिकारी का वेतन, महुँगाई भत्ता एवं अन्य व्यय	—	3,93,351
02.	रात्रिप्रहरी एवं आदेशपाल का वेतन, महुँगाई भत्ता एवं अन्य व्यय	—	2,67,158
03.	आकस्मिक व्यय	—	84,000

		कुल :-	7,44,509

(सात लाख चौवालिस हजार पांच सौ नौ रुपये मात्र)

चन्द्रमा सिंह,
अपर सचिव।

13 दिसम्बर 2012

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० शमीम, उप-सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

19 दिसम्बर 2012

सं० ई२-२-०३९- / २०१०-७०४८—४८वीं से ५२वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी श्री संतोष कुमार सिंह को निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० ई२-१-८५/२००७-०१ सह-पाठित ज्ञापांक ०९ दिनांक ०३ जनवरी २०११ द्वारा अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के पद पर नियुक्त किया गया है। उक्त के आलोक में श्री संतोष कुमार सिंह ने दिनांक ०८ जनवरी २०११ (पूर्वाहन) में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के पद पर योगदान किया है तथा वर्तमान में वे अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के रूप में भोजपुर जिला के जगदीशपुर अनुमंडल में पदस्थापित हैं। श्री संतोष कुमार सिंह ने अपने अभ्यावेदन दिनांक १६.११.२०१२ द्वारा अपने पूर्ववर्ती पदस्थापन विभाग, मंत्रीमंडल सचिवालय, भारत सरकार में अपनी सेवा वापसी करने के निमित्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद से दिनांक ०३ दिसम्बर २०१२ के प्रभाव से विरमित करने का अनुरोध करते हुए अपने पूर्ववर्ती विभाग के लिए विरमित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर के पत्र सं० ६५४/निर्वा० दिनांक २८ नवम्बर २०१२ द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह के त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने संबंधित अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत श्री संतोष कुमार सिंह, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान), जगदीशपुर अनुमंडल, जिला-भोजपुर, आरा का त्यागपत्र (Resignation) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

४ दिसम्बर २०१२

सं० ६/अ०प्र०-१-२/२०१२-१८८६३—श्री अरुण कुमार महतो, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना का कार्य सम्पादन हेतु अगले आदेश तक के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गोपाल नाराण सिंह, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, ४१—५७१+५०-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>